

## कॉपीराइट एक्ट के तहत तीन दुकानों पर दबिश:ब्रांडेड कंपनी का सामान डुप्लीकेट स्टीकर लगाकर बेचते 3 गिरफ्तार, 10 लाख का सामान जब्त



Video link:

<https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/barmer/news/3-arrested-for-selling-branded-companys-goods-with-duplicate-stickers-10-lakh-goods-seized-129216964.html?media=1>

बाड़मेर जिले में लंबे समय से ब्रांडेड कंपनियों के नाम से लोकल (डुप्लीकेट) इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हुए पाए जाने पर बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर से 4 लाख व बालोतरा 6 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया। कोतवाली व बालोतरा पुलिस ने बाड़मेर व बालोतरा की 2 इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में कार्रवाई की है। दोनों जगह से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत सामान बेचने का मामला दर्ज किया है। पुलिस पकड़े गए दुकानदारों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है।

दरअसल, जिले में कई दुकानदार अहमदाबाद से लोकल इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं। बाड़मेर में लाकर लोकल (नकली) सामान पर ब्रांडेड कंपनी के स्टीकर लगाकर सामान को बेचने का काम कर रहे थे। शिकायतकर्ता चंद्रशेखर ने बताया कि हम बजाज, उषा कंपनियों का काम देखते हैं। इन कंपनियों को शिकायतें मिल रही थी कि डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है।

हमने अपने लेवल पर सर्च किया तो बाड़मेर शहर में तीन दुकानों पर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान के स्टीकर लगाकर डुप्लीकेट सामान बेचने की सूचना मिली थी। इस पर हमने अपने स्तर पर डमी ग्राहक भेजकर पता लगाया। दो दुकानदारों ने सामान बेचने से इंकार कर दिया। वहीं एक दुकानदार ने कहा जितना मर्जी है उतना सामान मंगवा लो मिल जाएगा। दुकानदार ने बताया था कि सारा सामान अहमदाबाद से आता है। डमी कस्टमर को डुप्लीकेट सामान बेचा फिर उस सामान को कंपनी में भेजा और कंपनी ने वैरिफाई किया कि यह सामान डुप्लीकेट है। कंपनी ने एसपी दीपक भार्गव से बात की थी। इसके बाद बाड़मेर दुकानदारों के यहां पर दबिश दी।

### बालोतरा में दो इलेक्ट्रिक दुकानों से छह लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद, दो लोग गिरफ्तार

पुलिस ने गुरुवार को बालोतरा शहर के नया बस स्टैंड पर दो इलेक्ट्रिक दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कॉपी राइट कर बेचा जा रहा 6 लाख रुपए का सामान बरामद किया। वहीं दो आरोपी दुकानदार महेंद्रसिंह पुत्र बींजराजसिंह निवासी वरिया भगजी पुलिस व हरिसिंह पुत्र नेनसिंह निवासी पिजोपुरा पुलिस थाना कोतवाली जालोर हाल दूध डेयरी के पीछे बालोतरा को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम प्रभारी हरचंद्रराम व बालोतरा थाने के एसआई ओमाराम की संयुक्त पुलिस टीम ने शहर के नया बस स्टेशन के सामने स्थित मैसर्स माजीसा स्टील व मैसर्स मल्लीनाथ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर कार्रवाई की। करीबन 6 लाख रुपए के लोकल कम्पनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब्त किए। जब्त पंखे, गीजर, मिक्सर ग्रेण्डर, बिजली के तार, ब्लोर

हिटर, गैस चूल्हे सहित अन्य सामान पर नामी कम्पनियां मैसर्स टीटीके परेस्टिज लि, मैसर्स पेनासोनिक लाइफ सोल्यूशन इण्डिया, मैसर्स ओरियंटल इलेक्ट्रॉनिक लि., मैसर्स वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लि., मैसर्स इंडियन फेन मेनिफेक्चर, मैसर्स सूर्या रोशनी लि. के स्टीकर के नाम से असली बताकर बाजार में नकली सामान बेचना पाया गया।

### **ब्रांडेड कंपनी के नाम चार लाख रुपए के डुप्लीकेट आइटम बरामद, एक गिरफ्तार**

बाड़मेर शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर ब्रांडेड कंपनी के नाम से डूप्लीकेट आइटम बेचे जा रहे थे। कंपनी के अधिकारी की लिखित शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर दबिश देकर वहां से 4 लाख रुपए की लागत के नकली आइटम बरामद किए हैं। लोगों के साथ धोखाधड़ी कर नकली आइटम दिए जा रहे थे। इस पर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम प्रभारी हरचंद्रराम व कोतवाली के एसआई मीठाराम की संयुक्त टीमों ने दबिश देकर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कार्रवाई करते हुए करीबन 4 लाख रुपए के के लोकल कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम पंखे, प्रेस, प्रेशर कुकर, गीजर सहित अन्य सामान पर नामी कंपनी स्पीड सर्च एवं सिक्योरिटी सर्विस कंपनी के स्टीकर लगाकर असली के रूप में बाजार में बेचा जा रहा था। इस पर दुकान मालिक राजेश कुमार पुत्र चंदूमल सिंधी निवासी माल गोदाम रोड बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से नकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद किए गए।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/barmer/news/3-arrested-for-selling-branded-companys-goods-with-duplicate-stickers-10-lakh-goods-seized-129216964.html>